



MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2020-21/41

Date: July 29, 2020

To,

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001
Scrip Code: BSE - 522249

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-
400 051
Trading Symbol – MAYURUNIQ

Subject: Newspaper Advertisement for 27th Annual General Meeting to be held on August 27, 2020

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published by the Company in all edition of Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Regional -Hindi) Newspaper in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, intimating that 27th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, August 27, 2020 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means("OAVM").

You are requested to take on record the same.

Thanking You,
For Mayur Uniquoters Limited



Rahul Joshi
Company Secretary and Compliance Officer
ACS33135

A Texture For Every Idea



Correspondance Address:

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423
Regd. Office & Works: Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420
Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com

YUKEN YUKEN INDIA LIMITED
 Regd. Office: No. 16-C, Doddanekundi Industrial Area, II Phase, Mahadevpur, Bengaluru - 560048, Tel: +91 9731610341, Email: hmn_rao@yukenindia.com | Website: www.yukenindia.com
 CIN: L29150KA1976PLC003017

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 06th August, 2020, at 12.00 Noon inter alia to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results for the first quarter ended 30th June, 2020.

Pursuant to in compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and in accordance with the insider trading policy of the Company, the trading window for insiders would be closed up to 08th August, 2020.

The relevant information is available at Company's website at www.yukenindia.com and Stock Exchange website at www.bseindia.com

Place : Bangalore
 Date : 28.07.2020

By Order of the Board
C P RANGACHAR
 Managing Director

ZIM LABORATORIES LIMITED
 CIN : L9999MH1984PLC032172
 Registered Office : Sadoday Gyan (Ground Floor), Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur 440 013, Website : www.zimlab.in, E-mail : cs@zimlab.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 04th August, 2020 to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results (standalone and consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

The trading window under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 is closed from Wednesday, the 01st July, 2020 and will continue to remain closed till 48 hours after the declaration of the unaudited financial results. Accordingly, the trading window will open on Friday, the 07th August, 2020.

The notice has been uploaded on the website of the Company which can be accessed at www.zimlab.in as well as on the website of BSE Limited at www.bseindia.com

Dated : 28.07.2020
 Place : Nagpur

For ZIM LABORATORIES LIMITED
(Piyush Nikhade)
 Company Secretary

ISMT Limited
 Regd. Office : Lunkat Towers, Viman Nagar, Pune - 411014
 Phone : 020-41434100 Fax : 020-26630779
 E-mail : secretarial@ismt.co.in
 Website : www.ismt.com
 CIN : L27109PN1999PLC016417

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on July 31, 2020, inter-alia, to consider the Audited Financial Results for the period ended March 31, 2020. Further details will be available on Company's website www.ismt.com & Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com.

Pune
 July 28, 2020

For ISMT Limited
Chetan Nathani
 Company Secretary

WELSPUN CORP LIMITED
 CIN : L27100GJ1995PLC025609
 Regd. Office: Welspun City, Village Versamed, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat, Pincode-370110.
 Tel No.: 2836-662222, Fax : 02836-279060, email - Companysecretary_wcl@welspun.com, Website: www.welspuncorp.com
 Corp. Office: Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Pincode -400013.
 Tel No.: 022-2490 8000, Fax: 022-2490 8020

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended (Unaudited)		Year Ended (Audited)	
		30-Jun-20	31-Mar-20	30-Jun-19	31-Mar-20
1	Total Income	2,08,542	2,77,526	2,08,887	10,07,265
2	Net Profit for the period before tax from continuing operations	13,809	31,293	16,450	1,10,457
3	Net Profit for the period after tax from continuing operations	5,985	14,924	12,613	69,212
4	Net Loss for the period after tax from discontinued operations	(593)	(210)	(750)	(3,806)
5	Net Profit for the period after Tax (including non-controlling interests)	5,392	14,714	11,863	65,406
6	Total Comprehensive Income for the period (including non-controlling interest)	5,892	23,287	11,851	76,363
7	Paid up equity share capital (Face value of Rs. 5/- each)	13,044	13,044	13,261	13,044
8	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet as at 31 March 2020				3,08,480
9	Earnings per share (of Rs. 5/- each) (not annualised in quarters)				
	(a) Basic (In Rs.) - continuing operations	2.23	5.38	4.74	25.56
	(b) Diluted (In Rs.) - continuing operations	2.21	5.37	4.73	25.50
	(c) Basic (In Rs.) - discontinued operations	(0.23)	(0.08)	(0.28)	(1.44)
	(d) Diluted (In Rs.) - discontinued operations	(0.23)	(0.08)	(0.28)	(1.44)
	(e) Basic (In Rs.) - continuing and discontinued operations	2.00	5.30	4.46	24.12
	(f) Diluted (In Rs.) - continuing and discontinued operations	1.98	5.29	4.45	24.06

Notes:
 1 The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation of 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on Company's website www.welspuncorp.com.
 2 Additional Information on standalone financial results is as follow:

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended (Unaudited)		Year Ended (Audited)	
		30-Jun-20	31-Mar-20	30-Jun-19	31-Mar-20
a	Total Income	1,67,429	1,48,060	83,249	4,65,523
b	Net Profit for the period before tax from continuing operations	69,135	12,236	18,698	45,214
c	Net Profit for the period after tax from continuing operations	55,904	5,589	16,129	30,620
d	Net Profit loss for the period after tax from discontinued operations	(593)	(210)	(750)	(3,806)
e	Net Profit for the period after Tax	55,311	5,379	15,379	26,814
f	Total Comprehensive Income for the period	55,603	4,729	15,534	24,966

For and On Behalf of the Board
 Sd/-
Vipul Mathur
 Managing Director and Chief Executive Officer
 DIN - 007990476

Place: Mumbai
 Date: July 28, 2020

ICC REALTY (INDIA) PRIVATE LIMITED
 CIN : U45201PN2002PTC143638
 Regd. Office : Tech Park One, Tower 'E', Next To Don Bosco School, Off. Airport Road, Yerwade, Pune 411 006.

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

Sr. No.	Particulars	For the year ended	
		March 31, 2020 (Audited)	March 31, 2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	37,453.48	36,965.67
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	8,787.44	9,931.91
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,787.44	9,931.91
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,204.83	7,788.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,222.02	7,783.60
6	Paid up Equity Share Capital	1,071.40	1,149.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	16,867.98	46,249.96
8	Net worth	17,939.38	47,398.96
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	39,724.75	-
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-
11	Debt Equity Ratio	2.60:1	0.47:1
12	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -		
	1. Basic:	65.78	66.87
	2. Diluted:	65.78	66.87
13	Capital Redemption Reserve	363.03	285.43
14	Debtenture Redemption Reserve	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio	0.68:1	0.53:1
16	Interest Service Coverage Ratio	3.06:1	4.81:1

NOTES :
 1 The above Financial results have been prepared as per the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and have been reviewed and approved by the Board of Directors at its meeting held on July 28, 2020.
 2 The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the annual financial results are available on the websites of the BSE Limited.
 3 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.
 4 The figures for the corresponding previous period have been regrouped / restated wherever necessary, to make them comparable.
 5 The World Health Organization announced a global health emergency because of a new strain of coronavirus ("COVID-19") and classified its outbreak as a pandemic on March 11, 2020. On March 24, 2020, the Indian government announced a strict 21-day lockdown across the country to contain the spread of the virus, which was further extended till May 31, 2020. This pandemic and government response are creating disruption in global supply chain and adversely impacting most of the industries which has resulted in global slowdown.
 The management has made an assessment of the impact of COVID-19 on the Company's operations, financial performance and position as at and for the year ended March 31, 2020 and has concluded that there is no impact which is required to be recognised in the financial statements. Accordingly, no adjustments have been made to the financial statements.

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Segment Revenue		
Leasing of real estate properties	18,045.83	16,694.91
Hotel operations	19,093.30	19,987.30
Windmill operations	1,460.92	1,324.93
Inter-segment elimination	(1,146.57)	(1,041.47)
Total	37,453.48	36,965.67
Earnings before interest, depreciation and tax		
Leasing of real estate properties	14,329.63	12,557.79
Hotel operations	5,155.39	6,450.06
Windmill operations	1,180.63	1,099.18
Unallocable	(348.75)	(270.49)
Total	20,316.90	19,836.54
Earnings before interest and tax		
Leasing of real estate properties	9,884.26	8,030.06
Hotel operations	3,234.93	4,352.52
Windmill operations	987.23	870.76
Unallocable	(348.75)	(270.49)
Total	13,757.67	12,982.85
Interest cost	(4,970.23)	(3,050.94)
Profit before tax	8,787.44	9,931.91
Tax expenses	(1,582.61)	(2,143.60)
Profit for the period	7,204.83	7,788.31
Other comprehensive income	17.19	(4.71)
Total comprehensive income for the period	7,222.02	7,783.60

Particulars	As at	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Segment assets		
Leasing of real estate properties	55,315.41	55,115.75
Hotel operations	19,142.86	21,915.65
Windmill operations	1,115.65	1,344.00
Unallocable	3,002.09	2,949.83
Total	78,576.01	81,325.23
Segment liabilities		
Leasing of real estate properties	8,746.79	7,818.95
Hotel operations	2,536.25	3,581.96
Windmill operations	-	-
Unallocable	49,353.59	22,525.36
Total	60,636.63	33,926.27

For and on behalf of the Board of Directors of ICC Realty (India) Private Limited
 Sd/-
Atul Chordia
 Director
 DIN: 00054998

Sd/-
Resham Chordia
 Director
 DIN: 06652039

Place : Pune
 Date : July 28, 2020

SMS LIFESCIENCES INDIA LIMITED
 CIN: L74930TG2006PLC050223
 Registered office: Plot.No. 19-III, Road No.71, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School Jubilee Hills, Hyderabad-500 096.
 Phone.No: 040-66288888 Fax: 040-23551401, website: www.smslife.in email cs@smslife.in

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2020

S. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	Total Income from Operations	4,675.54	4,670.09	10,021.33	25,880.73	34,668.03	4,685.35	4,691.74	10,887.79	26,306.20	38,036.65
2	Net Profit/ (Loss) (before tax, Exceptional items)	117.09	(2.51)	533.40	1,333.77	2,375.83	127.07	(12.72)	603.18	1,466.81	2,538.49
3	Net Profit/ (Loss) before tax (after Exceptional items)	117.09	(2.51)	533.40	1,333.77	2,375.83	127.07	(12.72)	603.18	1,466.81	2,538.49
4	Net Profit/ (Loss) after Tax (after Exceptional Items)	147.11	(28.92)	406.80	914.72	1,663.32	157.24	(33.92)	460.09	1,018.31	1,784.72
5	Total Comprehensive Income (comprising profit/Loss after tax) and other comprehensive income	119.95	(30.81)	406.28	882.38	1,657.04	128.03	(34.65)	463.31	987.05	1,782.17
6	Equity Share Capital (Face value: Re.10/- each)	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33	302.33
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	11,023.24	10,195.53	-	-	-	11,270.98	10,330.57
8	Earnings per share (before extraordinary items) - (Not annualized)	4.87	(0.95)	13.46	30.26	55.02	5.20	(1.12)	15.22	33.68	59.03
	a) Basic/Diluted (in Rs)										

Notes:
 1 The above Standalone and consolidated Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on July 27, 2020 and The results are being audited by the Statutory Auditors of the Company.
 2 These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed Under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
 3 The above is an extract of detailed format of quarterly / annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of quarterly / annual financial results are available on the website of the Stock Exchanges of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com) and companies website (www.smslife.in).

By order of the Board
 for SMS Lifesciences India Limited
TVVSN Murthy
 Managing Director
 DIN: 00166485

Place : Hyderabad
 Date : 28-07-2020

यूको बैंक UCO BANK
 (A Govt. of India Undertaking)
 HEAD OFFICE : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOTICE

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that Board of Directors of the Bank will meet on 31st July, 2020, inter alia, to consider and to take on record unaudited (reviewed) Financial Results of the Bank for the 1st quarter ended 30th June, 2020. The notice is also available at Bank's website (www.ucobank.com) and on websites of NSE and BSE.

(Ram Kumar)
 General Manager
 Finance

Place : Kolkata
 Date : 28.07.2020

Honours Your Trust

MUTUALFUNDS
 Sathi Hai

uti
 UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE

UTI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to all investors(s)/Unit holder(s) of UTI Mutual Fund (Fund) that in accordance with Regulation 56 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018 the 'Abridged Annual Report' of all Schemes for the year ended March 31, 2020 has been hosted on our website viz. www.utimf.com and on website of AMFI viz. www.amfiindia.com

Investors can also request for a physical copy of the 'Abridged Annual Report' through any of the following means :

- SMS:** Send SMS to '5607090' from investor's registered mobile number. SMS format **AAR <Folio>** Example AAR '123456789' to 5607090.
- Telephone:** Give a call to our Contact Centre on 18002661230 (Toll Free). Landline-022-62278000
- Email:** Send an email to 'UTI@KFINTECH.COM'
- Letter:** Submit a request letter at any of UTI UFCs or OPAs quoting your folio no. List of UFCs available at www.utimf.com.

Any queries/clarifications in this regard may addressed to :
 UTI Asset Management Company Ltd.
 CIN: U65991MH2002PLC137867
 Investment Manager for UTI Mutual Fund
 UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex,
 Bandra (E), Mumbai - 400051

Mumbai
 July 28, 2020
 Toll Free No.: 1800 266 1230
 Website: www.utimf.com

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Mayur Uniquoters Limited
 Regd. Office and Works: Village-Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.
 Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420
 CIN: L18101RJ1992PLC006952

27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE AND OTHER INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Mayur Uniquoters Limited ("Company") will be held on Thursday, August 27, 2020 at 11.00 A.M (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The AGM will be held only through VC/OAVM in compliance with the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars dated May 5, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and the circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically would be provided in the notice of AGM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those members whose e-mail address are registered with the Company/ depositories and who are holding shares as on July 24, 2020. Members may note that the notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website at www.mayuruniquoters.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services of India Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. No physical copies will be dispatched to the Members.

In terms of MCA circulars, the businesses as stated in the Notice of AGM can be transacted through voting by electronic means only. The remote e-voting period will commence on Sunday, August 23, 2020 at 10:00 A.M (IST) and will end on Wednesday, August 26, 2020 at 5:00 PM (IST) for casting votes on all the business items as set out in the Notice of the AGM. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of the Beneficiary owners maintained by the depositories as on the Cutoff date i.e. Thursday, August 20, 2020, only shall be entitled to cast their vote. The facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM. The Member who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM would be provided in the notice of AGM.

Members whose shareholding is in electronic mode are requested to directly notify to their respective Depository Participant(s) about change of address and updates about bank account details and Members whose shareholding is in physical mode are requested to contact to Company's RTA on beta@rtat@gmail.com about change of address and updates about bank account details for receiving dividends directly in their bank account through the Electronic Clearing Services (ECS).

If member has not registered their email address with the Depository Participant (DP)/ Company may in case of holding shares in demat mode please contact their respective DP and those who are holding shares in physical mode are required to contact RTA of the Company on email id i.e. beta@rtat@gmail.com and get the same registered or any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, August 20, 2020, may obtain Notice of AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 and login details for joining AGM through VC/OAVM facility including e-voting details (user ID and password) by sending their request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address secr@mayur.biz.

For Mayur Uniquoters Limited
Rahul Joshi
 Company Secretary & Compliance Officer
 A-33135

Place: Jaipur
 Date: July 28, 2020

Navin Fluorine International Limited
 Regd. Office: 2nd floor Sunteck Centre, 37/40 Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057, Tel. No. 022-66509999
 Fax No. 022-66509800, Website:

